



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER

Jaipur, August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7372 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Bhiwadi has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Bhiwadi. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

प्रपत्र-क

नगर परिषद भिवाड़ी, अलवर (राजस्थान) के वाडों का प्रस्तावित सीमांकन

कुल जनसंख्या:- 104921

कुल वाडें 60

औसत जनसंख्या

क्र.सं.	वाडें नं.	प्रस्तावित वाडें सीमाओं का विवरण	जनसंख्या			वाडें नंबर/ग्राम	पूर्ण/आंशिक	विशेष विवरण
			कुल	अनु0जाति	अनु0ज0जाति			
1	1	एमपीएस स्कूल से अलवर तिराहा होते हुए हरियाणा सीमा पर चलते हुए जीएसटी ऑफिस को शामिल कर अलवर बाईपास क्रॉस कर दायीं ओर अलवर बाईपास पर चलते हुए भगत सिंह कॉलोनी के सम्पूर्ण ब्लॉक ए, डी को शामिल करते हुए अलवर बाईपास पर यू.आई.टी. बस स्टॉप से बायीं ओर चलते हुए बंसल हास्पिटल	1493	70	0	2	आंशिक	

		को शामिल करते हुए सेन्टजेवियर स्कूल के पीछे से बाई ओर घूमकर बीडा ऑफिस को शामिल कर बायीं ओर सोहना रोड पर एमपीएस स्कूल तक।						
2	2	आशियाना बगीचे को शामिल करते हुए मार्बल मार्केट से अनन्ताजगत को शामिल करते हुए कजारिया होते हुए बी.डी.आई. को शामिल करते हुए छाबड़ी मोर्केट से टेरा ग्रीन, जेनेसिस मॉल को शामिल करते हुए अलवर बाईपास रोड से आशियाना बगीचे तक।	1724	33	3	1	आंशिक	
3	3	सोहना रोड निरंकारी भवन से होते हुए यू. आई.टी. ऑफिस मोड वाली सड़क होते हुए सेन्टजेवियर स्कूल भगत सिंह कॉलोनी बी. ब्लॉक होते हुए सी. ब्लॉक को शामिल करते हुए सैदपुर में छीतर के मकान से भीमा का मकान, राजबीर का मकान, पटवारी का मकान होते हुए मिलकपुर सीमा आर. टी.ओ. ऑफिस आशियाना ग्रीन, नगीना गार्डन होते हुए निरंकारी भवन सोहना रोड तक।	2321	236	0	2	पूर्ण	
4	4	मैन रोड सैदपुर पवन की मार्केट से हरिराम हॉस्पिटल को शामिल करते हुए सम्पूर्ण आशियाना आंगन, एमवीएल, क्रीस और, कॉसमोस सम्पूर्ण को शामिल करते हुए कोशमोश सोसायटी के पीछे से प्रदीप के ऑफिस होते हुए सत्संग भवन होते हुए यू.आई.टी. द्वारा प्रस्तावित सड़क पर	2194	411	28	1,2	आंशिक	

		पश्चिम की ओर चलते हुए सैदपुर में बिल्लू नंबरदार के घर को शामिल करते भजनी सूबेदार के घर को शामिल करते हुए कुआँ से होते हुए सूबे कुमार के घर से हिम्मत सरपंच के मकान को शामिल करते हुए पवन मार्केट तक।						
5	5	कमल प्रोपर्टी से लीलीवेली स्कूल से महिपाल क्रेन के कार्यालय को शामिल करते हुए आशियाना गार्डन सम्पूर्ण को शामिल करते हुए रघुवीर के घर को शामिल करते हुए क्रीस वाटिका सम्पूर्ण को शामिल करते हुए कोर्नाक ओऐसिस सम्पूर्ण को शामिल करते हुए अलवर बाईपास रोड़ से कमल प्रोपर्टी।	1482	41	0	4,5	आंशिक	
6	6	बाबा देवपुरी मन्दिर खानपुर से शेरा वाली मन्दिर से बसन्ती के घर से सरूपा की ढाणी से जोहड़ से शिव मन्दिर से सार्वजनिक धर्मशाला से सोमदत्त के घर से जयपाल के घर को शामिल करते हुए शीतल ग्राम की सीमा तक यहाँ से उत्तर की ओर चलते हुए रामनारायण की ढाणी, हरिजन बस्ती प्रहलाद के मकान से शादी की ढाणी, छोटी चाची की ढाणी हरिजन बस्ती होते हुए रामजीलाल के घर से नई हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए अतरसिंह के मकान से शीतल मार्ग चलते हुए पश्चिम में घुमते हुए हरियाणा सीमा होते	1542	407	56	5	आंशिक	

		हुए जेनिसस व क्रीस वाटिका के पीछे चलते हुए बाबा देवपुरी मन्दिर खानपुर तक।						
7	7	सम्पूर्ण पावरग्रिड को शामिल करते हुए अलवर बाईपास रोड को क्रॉस करते हुए पुराना तिजारा रोड पर भिवाड़ी की ओर चलते हुए खिजूरीबास गाँव की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए बाईं ओर मिलकपुर सीमा से एम.टेक, निमाई सोसाइटी, ऐसेंसिया, ऐवलोन गार्डन को शामिल करते हुए अलवर बाईपास रोड होते हुए पावरग्रिड तक।	1333	172	0	5,7	आंशिक	
8	8	उदयपुर गाँव मुस्ताक कॉलोनी से पश्चिम में महेन्द्र के मकान से उमर मोहम्मद पुत्र श्री जुम्मा से रमजान की ढाणी से दक्षिण में उमरदीन की ढाणी हरिजन बस्ती से बुतासिंह के घर से होते हुए मटीला रोड मुस्ताक कॉलोनी तक।	1610	131	0	6	पूर्ण	
9	9	खिजूरीबास गाँव में सुरजन के मकान से सुरजन की ढाणी को शामिल करते हुए रामकुवार की ढाणी को शामिल करते हुए धर्मचन्द की ढाणी से फरसड की ढाणी से केशर के रास्ते होते हुए लक्ष्मण की ढाणी से स्वामीयों की ढाणी के रास्ते मटीला होते हुए द्विगला की ढाणी ओमेनन के पिछे से घाजुकी ढाणी होते हुए सरिया फेक्ट्री रोड पर नाहर फेक्ट्री आवासीय कॉलोनी से	1997	36	0	16	आंशिक	

		सुरजन की ढाणी तक।						
10	10	खिजूरीबास गाँव में धर्मु खाती के मकान को शामिल करते हुए सादीया के मकान से मीरसिंह नंबरदार के घर को शामिल करते हुए सुजान की ढाणी को शामिल करते हुए अमरसिंह की ढाणी को शामिल करते हुए सरूपा की ढाणी को शामिल करते हुए रामस्वरूप की ढाणी से धर्मु खाती के मकान तक।	1783	281	5	7	आंशिक	
11	11	राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मिलकपुर गुर्जर से पूर्व में रतिराम के मकान से दक्षिण की तरफ रामपाल पटवारी के मकान को शामिल करते हुए श्रीराम, हीरालाल के मकान होते हुए सूरजमल के मकान से भगवत वैध के मकान होकर सड़क पार कर जयराम भगत के मकान से दक्षिण में मिलकपुर ग्राम की सीमा तक व सीमा से पश्चिम में ग्राम मिलकपुर की सीमा से वापिस रा.उ. प्रा. विधालय मिलकपुर गुर्जर तक।	1697	96	3	8	पूर्ण	
12	12	मंशा चौक से अलवर भिवाड़ी रोड़ से हंसराम कॉलोनी, भजन कॉलोनी सुल्तान कॉलोनी, तहसीलदार कॉलोनी से सनविल स्कुल को शामिल करते हुए सैदपुर आर.टी.ओ. ऑफिस रोड़ से आर. एच.बी. ऑफिस को शामिल करते हुए नगर परिषद एस.टी.	1663	64	4	9,10,11	आंशिक	

		पी को शामिल करते हुए सेक्टर 9, 10 को शामिल करते हुए अरावली परियोजना के ब्लॉक एफ, ओ, पी, एस, एल, आर, व आर.एच.बी. सेक्टर 4 के ब्लॉक नंबर ई,डी,सी,एफ को शामिल करते हुए मंशा चौक मंशा चौक तक।						
13	13	आशियाना रंगोली आशियाना ट्री हाउस व सम्पूर्ण आशियाना विलेज को शामिल करते हुए गाँधी कुटीर सेक्टर 4 को शामिल करते हुए रा. हा. बोर्ड के जे एवं आई, के ब्लॉक को शामिल करते हुए आशियाना रंगोली तक।	1517	21	4	10	आंशिक	
14	14	करण स्टील से होते हुए हरियाणा सीमा से रेड फोक्स होटल को शामिल करते हुए स्काई व्यू को शामिल करते हुए मेशा चौक से आर.सी. पैलेस होते हुए करण स्टील तक।	1482	103	2	11	आंशिक	
15	15	मंशा चौक से मिलकपुर गुर्जर में बनवारी के मकान होते हुए दक्षिण में बालिका स्कूल से बाबा मोहन राम मन्दिर का रास्ता शामिल करते हुए पूर्व में श्मशान घाट वेदप्रकाश का मकान रामस्वरूप भगत का मकान शामिल करते हुए उत्तर में चिरंजी का मकान से कुआं एवं तेजा मार्केट से पश्चिम में बनवारी के घर होते हुए मंशा चौक तक।	1612	1005	0	9	आंशिक	

16	16	ग्राम मिलकपुर गुर्जर में राजेन्द्र के मकान से शुरू होकर दक्षिण की तरफ हरिराम गुर्जर के मकान को शामिल करते हुये चोपाड होते हुए भवानी के मकान व उम्मेद हवलदार के मकान को शामिल करते हुए सड़क पार कर खान के मकान से रतिराम पुत्र जगराम के मकान से प्रभाती की ढाणी व मंगु की ढाणी को शामिल करते हुए पूर्व में हरिराम के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में मिलकपुर गुर्जर की सीमा, काली खोली से उत्तर में मिलकपुर राजस्व सीमा को लेकर कमाल गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर जोहड के पास उदमी के मकान होते हुए हरकेश के मकान से राजेन्द्र के मकान तक।	2212	86	0	15	पूर्ण	
17	17	सम्पूर्ण सेक्टर 7 की पानी की टंकी से दक्षिण से चलते हुए पूर्व में पलेटो सहित उत्तर में मोहित के मकान से पश्चिम में पानी की टंकी तक।	1944	65	10	14	पूर्ण	
18	18	बलजीत दायमा के कार्यालय से आलमपुर ढाणी सम्पूर्ण लेते हुए मिलकपुर सीमा से सेक्टर 4 पानी की टंकी से होते हुए मन्दिर सेक्टर 4 को सम्मिलित करते हुए 4/267 से होते हुए सम्पूर्ण सेक्टर 4 को सम्मिलित करते हुए सामुदायिक भवन के सामने से कन्हैयालाल चौक से बलजीत दायमा कार्यालय	1888	59	4	13	आंशिक	

		तक।						
19	19	बी.एस. स्कूल से प्रभा चौक पर देवी दयाल के बिल्डिंग से गौरव पथ पर चलते हुए यू. आई.टी. सेक्टर 1 व नगर परिषद कार्यालय को शामिल करते हुए सेक्टर 2 को शामिल करते हुए अदीश ट्रेडर्स के सामने से बी.एस. स्कूल तक।	1765	73	13	12	आंशिक	
20	20	बस स्टैण्ड से प्रभा चौक होते हुए बी.एस. मैमोरियल स्कूल के सामने से होराम आटा चक्की होते हुए सती माता मन्दिर आलमपुर गाँव से अन्दर जयसिंह कॉलोनी से देशराम नागर के घर से रैन बसेरा होते हुए बस स्टैण्ड तक।	2267	440	5	12,24	आंशिक	
21	21	महेन्द्र के घर से गोरवपथ पर रमेश नागर की दुकान से ग्रामीण बैंक होते हुए ख्याली मार्केट से आलमपुर मन्दिर से बाबा मोहन राम पलेट से बहराम का घर से वापिस शिबु रविन्द्र के घर से होते हुए हजारी खचेडू के घर शामिल करते हुए सती माता का मन्दिर आलमपुर गाँव से महेन्द्र के घर तक।	2322	325	4	12,24	आंशिक	
22	22	सेन्ट्रल पार्क से हेतराम चौक होते हुए कन्हैया चौक से न.प. सामुदायिक भवन के सामने से सेक्टर 4 मकान नंबर 4/226 से होते हुए मकान नंबर 4/267 से होते पलैटो के उत्तर से पानी की टंकी होते हुए केप्टन चौक से अम्बेडकर भवन	1707	105	4	13,23	आंशिक	

		आदर्श स्कूल को शामिल करते हुए मकान नंबर 197 के सामने से विनायक प्रापटी के सामने से मकान नंबर 5/447 को सम्मिलित करते हुए मकान नंबर 510 शैलेन्द्र मकान को सम्मिलित करते हुए सेन्ट्रल पार्क तक।						
23	23	यू.आई.टी. गेस्ट हाउस से सेक्टर 5 में मकान नंबर 510 (शैलेन्द्र का घर) के सामने से होते हुए विनायक प्रापटी को सम्मिलित करते हुए मकान नंबर 5/197 को सम्मिलित करते हुए अम्बेडकर भवन के पिछे से केप्टन चौक होते हुए सेक्टर 8 लाला चरन राम चैरिटेबल डिस्पेन्सरी के पिछे वाली गली में मकान नंबर 8/97 को सम्मिलित करते हुए किड्स प्लानेट स्कूल से परशुराम चौक होते हुए यू.आई.टी. रेस्ट हाउस तक।	1826	58	3	22,23	आंशिक	
24	24	सेक्टर 9 में विनोद शुक्ला के मकान से दक्षिण में वाटर टैंक लेते हुए एच.पी. गैस गोदाम से मिलकपुर सीमा पर होते हुए सेक्टर 8 को शामिल कर मकान नंबर 8/709 को सम्मिलित करते हुए सेक्टर 8 में अन्दर मकान नंबर 8/97 के सामने से किड्स प्लानेट स्कूल को सम्मिलित करते हुए सेक्टर 9 में विनोद शुक्ला के मकान तक।	1808	167	12	22	आंशिक	
25	25	सेक्टर 6 में मेघा स्वीट्स से परशुराम चौक होते हुए सेक्टर 9 में मकान नंबर 9/74 से होते हुए	1545	51	22	21,22	आंशिक	

		मकान नंबर 9/404 को सम्मिलित करते हुए कन्टेनर डिपो होते हुए सम्पूर्ण सेक्टर 9 को सम्मिलित करते हुए सेक्टर 6 में मनोज यादव मकान नंबर 6/97 को शामिल करते हुए मेघा स्वीट्स तक।						
26	26	सम्पूर्ण गुप हाउसिंग 6 को लेते हुए गौरव पथ राणा फास्ट फूड से सेन्ट्रल पार्क के सामने से मेघा स्वीट्स के पीछे गली से आयकर भवन से सम्पूर्ण गुप हाउसिंग से सेक्टर 6 तक।	1526	50	5	21	आंशिक	
27	27	घनश्याम मार्केट से पश्चिम, कालूराम एडवोकेट से होते हुए समतल चौक से अनिल बुट हाउस से रामकिशन मास्टर के मकान को शामिल करते हुए सतीश के घर को शामिल करते हुए लल्लु हवलदार के मकान से श्मशान घाट होते हुए कच्चे बांध की पाल की सीमा होते हुए घनश्याम के घर तक।	1735	109	0	25	आंशिक	
28	28	नगीना शोरूम वाली गली को शामिल करते हुए स्वागत शोरूम को शामिल करते हुए लालजी बुट से दिनेश यादव के मकान को शामिल करते हुए कुष्णा मन्दिर श्मशान घाट से बाबा भैया वाली को शामिल करते हुए खुशीराम के घर को शामिल करते हुए वीरसिंह सरपंच के मकान से विजय के मकान से नगीना तक।	1905	33	0	25,26	आंशिक	

29	29	गौड पान भण्डार से यश फेन्डस फैशन से मामचन्द सरपंच के मकान को शामिल करते हुए विक्रम चन्देला भवन को शामिल करते हुए रा. उ.मा. विधालय भिवाड़ी मौड को शामिल करते हुए पुलिस चौकी को शामिल करते हुए करण स्टील के उत्तर से हंस स्टोर से गोल्डन ट्रासपोर्ट में से बलवीर मोकेर्ट को शामिल करते हुए समतल चौक से बंसल मैडीकल से पानी की टंकी से अशोक वाटिका (पंजाबी पार्क) को शामिल करते हुए गौड पान भण्डार तक।	1454	3	0	26,27	आंशिक
30	30	सरोज नर्सिंग होम से मकान नंबर 1/76 से हरियाणा सीमा होते हुए देहली कॉलोनी को सामिल करते हुए राजु पेन्टर से सुमित किराना स्टोर से शाह डॉक्टर के मकान को सामिल करते हुए राजवीर यादव के मकान से भारत अल्ट्रासाउण्ड होते हुए सरोज नर्सिंग होम तक।	1665	6	0	27	आंशिक
31	31	रविन्द्र पब्लिक स्कूल से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 सम्पूर्ण व गणपति मॉल शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सब्जीमण्डी, सरकारी अस्पताल होते हुए पेट्रोल पम्प से होकर डालचन्द गुर्जर के मार्केट को शामिल करते हुए रामफल सिनेमा व गोपिनाथ अस्पताल होते हुए एस-2 से रविन्द्र पब्लिक स्कूल तक।	1472	48	0	28	पूर्ण

32	32	शिवसिंह के मकान से शुरू राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3 सम्पूर्ण व पलाल इण्डस्ट्रीज होते हुए हरियाणा सीमा तक व प्रमाण ज्योती सिन्टेक्स राज. उद्योग कम्पनी को लेते हुए शिवसिंह के मकान तक।	1561	26	0	29	पूर्ण
33	33	प्रहलाद तंवर के घर से बलवीर के घर से होते हुए रामफल सिनेमा के पूर्व से आर.एस.ई.बी. को शामिल करते हुए आर.एस.ई.बी. के उत्तर में होते हुए रेजेन्सी होटल को शामिल करते हुए खटाना सिमेन्ट को शामिल करते हुए भिवाड़ी गाँव के अन्दर गली में होते हुए शीशराम के ऑफिस को शामिल करते हुए रामचौक से प्रहलाद के मकान तक।	1734	123	0	30,32	आंशिक
34	34	घनश्याम प्रधान मार्केट से भिवाड़ी गाँव नन्दलाल के मकान से चौपाड के रास्ता होते हुए जयभगवान पण्डित के घर मेहरचन्द प्रधान का घर से दूलीचन्द के घर से पप्पी कॉलोनी से पप्पी जसवन्त के घर से घनश्याम प्रधान के खेत से होते हुए घनश्याम प्रधान मार्केट तक।	1442	473	0	31	आंशिक
35	35	रतिराम हलवाइ की दुकान से होते हुए एसबीआई बैंक को शामिल करते हुए दीपक के घर उचित मूल्य की दुकान होते हुए गोपी के घर के सामने से पूर्व का भाग होते हुए मुन्नी विरेन्द्र के घर को	2009	101	1	32	आंशिक

		शामिल करते हुए होली टीबा की सीमा से होते हुए शीशराम के घर को शामिल करते हुए पिपल वाले मन्दिर से गर्ल्स स्कूल भिवाड़ी गाँव के सामने से होते हुए श्योराम मार्केट से पूर्व से जीत क्रैन के ऑफिस होते हुए रतिराम हलवाई की दुकान तक।						
36	36	स्टेडियम हेलीपेड से होते हुए बिकानेर मिष्ठान भण्डार को लेते हुए नवीन पब्लिक स्कूल से दक्ष एकेडमी से नागराज से घर होते हुए दूलीचन्द के घर से मोहन के घर से मोहम्मद नवी से चौपाल के दक्षिण की तरफ में पीपल की गली से होते हुए गजेन्द्र के घर से स्टेडियम तक।	1725	599	0	31	आंशिक	
37	37	कुन्दन मार्केट से समतल रोड पर श्योराम मार्केट को शामिल करते हुए गजराज के मकान को शामिल करते हुए मेहरू के मकान को शामिल करते हुए वेदू के मकान को शामिल करते हुए पुरानी हवेली से भैया वाला कुआँ से कुन्दन मार्केट तक।	1914	159	1	30,32	आंशिक	
38	38	दीपक के मकान से गोपी राम का मकान से केहरचन्द के मकान से जयकिशन नाई से दिनेश पण्डित से प्रकाश के मकान से कमल खाती के मकान से निरंजन के मकान से राजीवगांधी एकलेन से आर.टी.ओ. ऑफिस से गौरव पथ से यू.आई.टी. पुलिस थाना से यू.आई.टी.	1992	83	9	33	आंशिक	

		सेक्टर 3 से निरंजन कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए दीपक के मकान तक।						
39	39	रामसिंह कॉलोनी से रमेश के घर से शिव पब्लिक स्कूल से यू.सी.एस.के.एम. स्कूल से पेंगविन मडिल स्कूल से ग्रुप हाउसिंग सेक्टर 6 की पूर्व सीमा से सुरेन्द्र के मकान से श्याम पब्लिक स्कूल से सुखवीर कॉलोनी होते हुए रमेश के मकान से महेन्द्र कॉलोनी से हरिराम के मकान से होते हुए विनाद के घर से रामसिंह कॉलोनी तक।	1528	55	8	34	आंशिक	
40	40	बसन्ता के मकान से सुरेन्द्र कॉलोनी से ज्ञानदीप स्कूल होते हुए गणेश भगत के मकान से संतरा देवी के मकान से सुभाष के मकान को शामिल करते हुए कन्टेनर डिपो होते हुए सुनेरी के मकान से सुकन्दर के मकान से हंस कॉलोनी से बसन्ता के मकान तक।	1512	82	0	20	आंशिक	
41	41	सेन्ट गोबिन चौक से भोमसिंहि की ढाणी को शामिल करते हुए रा.प्रा.विधालय होते हुए पहाडी के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए गुर्जरो की ढाणी से गुरुदत्त की ढाणी को शामिल करते हुए सम्पूर्ण ग्राम गोधान को शामिल करते हुए हरला की ढाणी को लेते हुए डॉ. आँथकर कम्पनी से सेन्ट गोबिन चौक तक।	1455	9	7	17	आंशिक	

42	42	राजकीय माध्यमिक विधालय सांथलका के पश्चिम में बलवीर सुबेदार के घर को शामिल करते हुए निरंजन जाटव के मकान से सरकारी नाला होते हुए छंगा के घर के सामने से हरवीर कॉलोनी रघुवीर कॉलोनी लम्बरदार के घर को शामिल करते हुए धन्नी सरपंच के घर से दौलत जाटव के मकान से बलवीर के मकान तक।	1798	568	2	19	आंशिक	
43	43	सांथलका चौक पानी की टंकी से मण्डरमजु की दुकान से होते हुए हरवीर के घर से खाती के घर को लेते हुए रामकुंवार की दुकान से होराम के घर को शामिल करते हुए जोहड वाला भैया से मतवा के घर को शामिल करते हुए रा. मा.विधालय सांथलका से नेकी की कॉलानी को शामिल करते हुए कृष्ण के मकान से टम्मी की कॉलोनी से पप्पी के मकान से छंगा के मकान से होते हुए सरकारी नाले से मन्दिर होते हुए मनोज का घर होते हुए धनीराम सरपंच के घर के सामने से गिरिराज की कॉलोनी को शामिल करते हुए मैडिकामैन कॅम्पनी के सामने से गणपति पेकेजिंग होते हुए स्टार लाइन होते हुए अक्ष के सामने से पानी की टंकी सांथलका तक।	1602	270	5	19,20,34	आंशिक	
44	44	सांथलका पानी टंकी में रोहिताश के घर को शामिल करते हुए खारिया पिपल होते	1811	115	19	35	आंशिक	

		हुए हंसा की बैठक होते हुए रति के मकान से चौपाल पूर्व में होते हुए श्रीराम के घर से मोबाइल टावर होते हुए गबद के घर से फ्री की दुकान को शामिल करते हुए हरिया मार्केट को शामिल करते हुए पानी की टंकी तक।						
45	45	फेड्रल मोगल से डीएसआर सरिया होते हुए पार्श्वनाथ मॉल के सामने से कैपिटल गलेरिया होते हुए यू.सी.एस.के. एम. के सामने से सांथलका का चौक शामिल करते हुए सुबेसिंह के मकान के सामने से हिन्दपाल फौजी के मकान को लेते हुए टेकचन्द कॉलोनी से मेहरचन्द कॉलोनी से प्रकाश कॉलोनियों से छोटे लाल के मकान लाला चन्दगी के मकान को शामिल करते हुए रामसिंह के मकान से हरचन्दी के मकान को शामिल करते हुए गुल्लू के मकान से चौपाल से होते हुए टेकू के मकान में खारिया पिपल से कमल प्रभाती के मकान होते हुए पानी की टंकी से रिलेक्सो चौक फेड्रल मोगल तक।	1954	90	8	34,35	आंशिक	
46	46	गणपति प्लाजा होते हुए रजिस्टार ऑफिस के सामने से गुलशन केमिकल को शामिल करते हुए हरियाणा सीमा होते हुए उत्तम लिमिटेड के पूर्व में होते हुए ओरियेन्ट को शामिल करते हुए बी.बी. मॉल से कोन्टीनेटल को शामिल करते हुए पार्श्वनाथ मॉल को	1831	116	25	36,37,38	आंशिक	

		शामिल करते हुए तेजपाल ठेकेदार के ऑफिस होते हुए भुसन्ड लॉ को शामिल करते हुए हरचन्दपुर चौक धर्मकाटा को शामिल करते हुए कैपिटल हाई स्ट्रीट को शामिल करते हुए गणपति प्लाजा तक।						
47	47	हरचन्दपुर चौक से परमाल की दुकान को शामिल करते हुए लक्ष्मी धर्मकाटा होते हुए छावड़ी मार्केट, अलका पलोर से कामधेनु आशियाना से रामकाटा को शामिल करते हुए सरकारी जोहड़ को शामिल करते हुए भजनलाल के घर को शामिल करते हुए मदन की दुकान को शामिल करते हुए धर्मपाल के मकान परमाल की दुकान से हरचन्दपुर चौक तक।	1855	473	62	36,40	आंशिक	
48	48	अजन्ता चौक से चन्द्रप्रभु को लेते हुए रिलक्शो चौक से अक्ष कम्पनी से अजीत खटाणा की कम्पनी से हंसा मास्टर के मकान को शामिल करते हुए फुलसिंह के मकान को शामिल करते हुए मालब्रोस से होते हुए सेन्टगोबिन होते हुए साबु के घर को शामिल करते हुए पहाड के उत्तर में लगते हुए आबादी को लेते हुए सुन्दर कुम्हार के घर से मैन रास्ता से सतीश के घर का दक्षिणी भाग को लेते हुए उत्तर में हाजी सरदारी की दुकान से सुच्चा की ढाणी से रिको पम्प हाउस को शामिल करते हुए अजन्ता चौक तक।	1743	383	0	17,40,44	आंशिक	

49	49	कहरानी में दिनु हाजी के मकान से जमालू के मकान से दक्षिण चलते हुए शौदान के मकान के पूर्व में हरिजन मोहल्ले को शामिल करते हुए ममौली सरपंच की मस्जिद को शामिल करते हुए स्कूल रास्ते के बांये भाग के क्षेत्र एवं स्कूल के पीछे का क्षेत्र खुदावक्श की ढाणी को शामिल करते हुये आसीन सरपंच के मकान को शामिल करते हुए आसीन सरपंच के मकान को शामिल करते हुये फौवट्री एरिया से राजवीर प्लांट से रेलवे ट्रेक के पूर्व का भाग लेतु हुए दीनू हाजी के मकान तक।	1732	50	0	44	आंशिक
50	50	दीनू कालोनी से दक्षिण की ओर आमीन याकूब पूर्व में जयमल के मकान से दक्षिण में गांव वाली मस्जिद से हारून के मकान से सुबाना मार्केट से दक्षिण में हाजी मुहरखां शामिल होते हुए सोकत कालोनी से साहुन कारेंडी वाले के मकान से होते हुए, तारा पंजाबी से हाजी चावखां से कासम की दुकान से वास दीनू की कालोनी तक।	1900	195	2	18	पूर्ण
51	51	लक्कड चौक से सेल कम्पनी से टेकचन्द बालाजी सर्विस स्टेशन होते हुए शिव शेखावटी होटल को शामिल करते हुए सुन्दर के मकान को शामिल करते हुए फतेहसिह के मकान से होते हुए रूपचन्द कॉलोनी को शामिल करते हुए नौलखा को	1685	490	76	36,40	आंशिक

		शामिल करते हुए केईआई को शामिल करते हुए पावर हाउस को शामिल करते हुए कृपाराम के मकान, कालू राम के मकान राजकुमार, खिल्लू रामसिंह से बलदेव कालोनी शिव मन्दिर बीकेटी, सेल कम्पनी को शामिल करते हुए पिताम्बर कम्पनी को शामिल करते हुए सेल कम्पनी लक्कड चौक तक।						
52	52	महावीर एल्युमिनियम को शामिल करते हुए केंजल कम्पनी होते हुए घटाल पार्क शिव मन्दिर होते हुए सरकारी स्कूल घटाल होते हुए रतन गुर्जर व हनुमान शॉपिंग व खण्ड मार्केट शामिल करते हुए डी.एस.पी. ऑफिस से अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक कार्यालय होते हुए लक्कड चौक से महावीर एल्युमिनियम तक।	1794	70	15	38,39	आंशिक	
53	53	बिजली सब स्टेशन के पीछे से होते हुए गोपिवन्दपुरा होते हुए राजस्थान एंटी बायोट्रिक कम्पनी होते हुए वैलकम कम्पनी होते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस होते हुए नवजीवन अस्पताल होते हुए वाल्मिकी बस्ती घटाल को शामिल करते हुए इबर, जस्सु जब्बार के मकान से गुरुद्वारा चौक होते हुए कब्रिस्तान श्मशान की सीमा से होते बिजली सब स्टेशन तक।	1794	761	0	37,38	आंशिक	
54	54	रोहित पैकेजिंग से हरियाणा सीमा होते हुए फेडरल मुगल कम्पनी से बिजली	1946	101	4	39	आंशिक	

		बोर्ड सब स्टेशन होते हुए चांवला फेक्ट्री होते हुए वैशाली कॉलांनी होते हुए रमजान कॉलोनी होते हुए घटाल मस्जिद होते हुए मसीता के मकान से सरकारी स्कूल घटाल होते हुए राजपाल कॉलानी प्रताप कॉलानी से सकाटा कम्पनी से रोहित पैकेजिंग तक।						
55	55	केसरी स्टील सूरजसिनेमा होते हुए वर्फ फेक्ट्री के सामने से प्रकाश के मकान को शामिल करते हुए राजू कबाडी को शामिल करते हुए बिल्लु के मकान को शामिल करते हुए इरफान के मकान से होते हुए असलम के घर से श्मशान होतें हुए दिलीप सरपंच के प्लाट से मामचन्द सरपंच के प्लांट से लल्लु के मकान को शामिल करते हुए भाटी के मकान से केसरी स्टील सूरजसिनेमा तक।	1981	128	1	41	आंशिक	
56	56	राजेन्द्र मेटल से ई. एस.आई. अस्पताल को शामिल करते हुए आशु की मार्केट को शामिल करते हुए नयागाँव आबादी को लेते हुए सदीक के मकान को लेते हुए मदन के मकान को लेते हुए वर्मा के मकान से रामू के मकान से रा.प्रा. विधालय से होते हुए माता मन्दिर से गोयल कम्पनी व मस्जिद को शामिल करते हुए अजीत की कम्पनी से पटेल किराना स्टोर से राजेन्द्र मेटल।	1403	213	2	41,43	आंशिक	

57	57	जगदीश के घर से सुनील नाई के घर को शामिल करते हुए रा.प्रा.विधालय मुण्डाना से आबादी की ढाणी को शामिल करते हुए सपाता के मकान से अमलाकि रोड पर डीएफसीसी रेलवे लाईन के दायी ओर घुमते हुए रिको के नाले के सहारे चलते हुए फेक्ट्री के मोड तक, वहां से ईपीआईएल कम्पनी को छोड़ते हुए मुख्य सड़क पर चलते हुए नयागाँव की रोड की ओर चलते हुए एकसीलेन्ट एन्टर प्राईजेस के सामने तिराये से पहाड के सहारे दायी ओर मुण्डाना की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए जगदीश के घर तक।	1761	102	0	43	आंशिक
58	58	केसरी स्टील से वेरीयल होते हुए सब्बीर के घर से होराम के घर से बाबूलाल के घर से मस्जिद से रामपुरा मुख्य आबादी को लेते हुए पहाड के सहारे चलते हुए केसरी स्टील तक।	1548	582	11	42	आंशिक
59	59	सम्पूर्ण अमलाकी गाँव को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा में हरियाणा की सीमा से अजीपाल का मकान, धर्मवीर का मकान, स्वराज का मकान शामिल करते हुए बेदराम, रामू, देवीराम के मकान से ओमी के मकान बिरजू लक्ष्मी के घर वाली गली से सिरदार के घर को शामिल करते हुए वीरसिंह तथा गिर्राज के मकान तक वापस सम्पूर्ण अमलाकी गाँव तक।	1721	232	0	44,45	आंशिक

60	60	गुरुद्वारे में होते हुए शाहडौद की तरफ जाने वाली सड़क पर आशियाना सुरभी को शामिल करते हुए सम्पूर्ण कम्मा की ढाणी को शामिल करते हुए शाहडौद की मुख्य सड़क में रघुवीर के घर को शामिल करते हुए चन्दन मास्टर के घर से चौपाल से गजराज राजवीर पटेल से अजित फौजी से अशोक उदयराज के घर से होते हुए रा.मा.वि. से रामकुवार पाण्डेय के घर से बांध के उपर से चलते हुए हरियाणा सीमा में जोगीन्दर सरदार के गुरुद्वारे से नेमसिंह मास्टर के घर को शामिल करते हुए गुरुद्वारे तक।	1699	149	0	42,45	आंशिक
		कुल योग	104921	11583	445		

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।